

प्रेस नोट थाना इज्जतनगर बरेली दिनांक 06-06-2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में महिला सम्बन्धी अपराधों/बलात्कार /अवैध शस्त्रों जैसे संज्ञेय अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं वाञ्छित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के कुशल निर्देशन में थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2021 धारा 323/506/376डी आईपीसी व 3(2)V SC/ST Act में वाञ्छित अभियुक्त गण 1.धर्मेन्द्र पुत्र मदनमोहन 2.अनुज पुत्र वेदप्रकाश 3.विशाल पुत्र लालारम 4. अमित पुत्र विक्रम 5.नरेश पुत्र रामगोपाल 6.नीरज पुत्र नामालूम जाति कुर्मी नि0गण नामालूम की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 06.06.2021 को मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स उ0नि0 सतीश कुमार मय उ0नि0 संदीप पवार मय उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय हे0का0 698 सुधीर कुमार मय का0 1255 विक्रांत मय का0 1610 अनुज गोला , का0 2240 अर्जुन मय सरकारी गाड़ी नं0 यू0पी0 25 एजी 0863 चालक का0 1717 रोहित अत्रि के थाना हाजा से रवाना होकर देखरेख क्षेत्र/ चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं रोकथाम जुर्म जरायम आदि में विलयधाम पर पहुँचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम धीमरी के जिन मुल्जिमो ने दिनांक 31.05.2021 को बलात्कार की घटना की है उनमे से दो मुल्जिम विशाल व अमित थोड़ी देर मे ही गाँव की तरफ से मोटर साईकिल पर कलापुर पुलिया के रास्ते से पीलीभीत की तरफ जाने की फिराक में थे । क्योकि सुवह होने को है पूरी रात ये लोग जंगलो मे छिपे रहे है यदि रास्ते में लगकर चैकिंग कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाये तो गिरफ्तार हो सकते है इसके वाद हम पुलिस वाले मुखविर को साथ लेकर कलापुर पुलिया से आगे ग्राम वर्कापुर की सीध से आगे निकलकर चले तो सामने से गाडी की रोशनी मे एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते हुये दिखायी दिये जिनकी तरफ टार्चो की रोशनी डाली और उन्हे वन्द पडे सीमेन्ट ईट कारखाने के पास सडक पर जीप लगाकर रोकने का प्रयास किया तो मोटर साईकिल पर आ रहे उन व्यक्तियो मे से एक चिल्लाया और बोला कि अमित भाग सामने पुलिस है इसी बीच इन व्यक्तियो की मोटर साईकिल सीमेन्ट ईट कारखाने के गेट के पास फिसलकर गिर गयी और दोनो बदमाशो ने पुलिस पार्टी पर कारखाने की दीवार की आड लेकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे हम पुलिस वाले एकदम हडबडा गये और अपने को सम्भालते हुये एकदम बदमाशो की फायरिंग से वचते हुये गाडी से उतरकर पोजिशन लेकर अपना अपना वचाव करने लगे इसी दौरान मुझ एसएचओ द्वारा बदमाशो को वुलंद आवाज में ललकारते हुये चेतावनी देकर बताया गया कि मैं सतीश कुमार एसएचओ इज्जतनगर बोल रहा हूँ आप लोग आत्मसम्पर्ण कर दो किन्तु बदमाशो पर चेतावनी का कोई असर नही हुआ और हम पुलिस वालो पर लगातार फायरिंग करते रहे इसी बीच बदमाशो द्वारा की जा रही फायरिंग की एक गोली मेरे हमराह उ0नि0 श्री विनोद कुमार के कान के पास से होकर गुजरी जिसके सम्बन्ध में उ0नि0 द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे एक गोली गुजरी है जिससे मैं बाल बाल बचा हूँ साहव जल्दी कुछ करो नही तो हम सभी मारे जायेगे इस पर मेरे द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष को जरिये आरटीसैट बदमाशो से मुठभेड होने व फायरिंग करने की सूचना देते हुये आसपास के थानो का अतिरिक्त पुलिस बल भिजवाने हेतु बताया गया तथा थाने से अतिरिक्त पुलिस बल तुरन्त भेजने हेतु निर्देश दिये गये तथा उच्च अधिकारीगण को बताया गया । इसके बाद पुनः चेतावनी दी गयी किन्तु बदमाश हम पुलिस वालो पर रूक रूक कर फायरिंग करते रहे जिस पर मैने व मेरे हमराही फोर्स ने जान की परवाह न करते हुये इन परिस्थितयो मे अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुये आगे वढकर बदमाशो को पकडने का प्रयास किया तो बदमाशो द्वारा हम पुलिस कर्मियो पर पुनः फायरिंग शुरू कर दी गयी तो मेरे द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाशो को ओवर पावर करने के उदेश्य से हमराही पुलिस कर्मियो को न्यूनतम जवावी फायरिंग करने का आदेश दिया और हम पुलिस वालो ने सिखाये हुये तरीके से आड लेकर जवावी फायरिंग की इसी वीच बदमाशो की तरफ से एक व्यक्ति के कराहने की आवाज आयी और एक व्यक्ति पूरब दिशा मे जंगल की और भागा जिसका पीछा करने हेतु पुलिस की टीम को जंगल में मौके से रवाना किया गया । कुछ देर बाद फायरिंग रूक गयी इस पर कुछ इंतजार के वाद सतर्कतापूर्वक छिपते छिपाते

कारखाने की तरफ टार्चों की रोशनी डालते हुये आगे वढकर देखा तो सडक से पूरब दिशा की ओर कारखाने के वरावर में कच्चे रास्ते पर सडक से करीव 10 कदम की दूरी पर नाले के पास एक बदमाश घायल अवस्था में पडा मिला जिसके पास जाकर देखा तो उसके बायें पैर में गोली लगी है खून बह रहा है इससे इसका नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम पता **विशाल पुत्र लालाराम जाति कुर्मी नि0 ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जिला बरेली** बताया जिसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 वोर मिला । मौके पर 03 खोखा कारतूस 315 वोर व 1 खोखा कारतूस 12 वोर पडे मिले अभियुक्त की जामा तलाशी से पहने लोअर की दाहिनी जेव में 02 जिन्दा कारतूस 315 वोर बरामद हुये । अभियुक्त विशाल थाना हाजा के अ0स0 321/21 मे वाछित है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी समय 04.50 एएम पर की गयी । घायल बदमाश ने पूछने पर जंगल मे भागे हुये अपने साथी का नाम **अमित पुत्र विक्रम जाति कुर्मी नि0 ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली** बताया । घायल बदमाश गोली लगने से घवराया हुया है जिसको जीवन रक्षा हेतु तत्काल चिकित्सासहायता दिलाने के लिये जिला अस्पताल बरेली भिजवाया गया तथा मो0 सा0 के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई कागजात ना होने के कारण धारा 207 एमवी0 एक्ट में कब्जे में लिया गया इसके बाद जंगल में भागे हुये बदमाश का पीछा करने हेतु भेजी गयी पुलिस टीम ने करीब एक घंटा बाद वापस आकर बताया कि जंगल में भागा हुआ बदमाश हाथ नहीं आया है फरार हो गया है इसके बाद मौके पर शेष रहे समस्त पुलिस बल को एकत्र करके सभी की कुशलक्षेम पूछी गयी तो सभी ने कुशलता प्रकट की । इस घटना में उ0नि0 श्री संदीप पंवार द्वारा अपनी पिस्टल नं016443411 से एक फायर करना बताया एवं जिला चिकित्सालय घायल अभियुक्त को लेकर गये पुलिस कर्मियों से दूरभाष से वार्ता कर पूछा गया तो का0 1610 अनुज गोलाने अपनी इंसास रायफल न0 18679620 से एक फायर किया जाना बताया तथा अपने रायफल एवं शेष बचे कार0 तथा एक खोखा कार0 उ0नि0 जितेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर अस्पताल जाना बताया । । घटना में सरकारी पिस्टल व रायफल से की गयी । पकडे गये घायल बदमाश की गिरफ्तारी एवं उसके पास से तमंचा एवं कारतूस एवं खोखा कारतूसों की बरामदगी समय करीब 04.50 बजे की गयी । और मौके से फरार अभियुक्त अमित पुत्र विक्रम जाति कुर्मी नि0 ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली एवं अन्य शेष अभियुक्त गण को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा ।

इसके बाद आज दिनांक 06.06.2021 को ही थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2021 धारा 323/506/376डी आईपीसी व 3(2)V SC/ST Act में वाछित अभियुक्तों की तलाश हेतु पुनः उ0नि0 संदीप पंवार मय हमराही कर्म0गण हे0का0 698 सुधीर कुमार मय का0 1255 विक्रान्त तोमर के थाना हाजा से रवाना हुआ तो जरिये मुखबिर सूचना मिली की आपके मुकदमें मे वाछित अभियुक्त **अनुज पुत्र वेदप्रकाश जाति कुर्मी नि0 ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष विलयधाम पर कही जाने की तलाश में पीलीभीत रोड़ की तरफ खड़ा है । मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियुक्त अनुज को भी गिरफ्तार कर जेल भिजा गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्तगणः--

1. विशाल पुत्र लालाराम जाति कुर्मी नि० ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जिला बरेली उम्र करीब 22 वर्ष सं० मु०अ०सं० 321/2021 धारा 323/506/376डी आईपीसी ।
2. अनुज पुत्र वेदप्रकाश जाति कुर्मी नि० ग्राम धीमरी थाना इज्जतनगर जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष सं० मु०अ०सं० 321/2021 धारा 323/506/376डी आईपीसी ।

बरामदा सामानः-

1. एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल मे एक खोखा कारतूस फसा हुआ व 2 जिन्दा कार० एव 03 खोखा कार० 315 बोर एक खोखा कारतूस 12 बोर
2. अभियुक्त के कब्जे से एक अदद टीवीएस स्पोर्ट मोटर साईकिल रंग काला/ लाल नं० UP 25 AB 663 (जिसका एक अंक मिटा हुआ है।)

आपराधिक इतिहासः-

A-विशाल पुत्र लालाराम नि० धीमरी भगवानपुर थाना इज्जतनगर जिला बरेली

1. मु०अ०सं० 324/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्जतनगर
2. मु०अ०सं० 321/2021 धारा 323/506/376डी आईपीसी थाना इज्जतनगर

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार
2. उ०नि० संदीप पंवार
3. उ०नि० विनोद कुमार
4. उ०नि० जितेन्द्र कुमार
5. हे०का० 698 सुधीर कुमार
6. का० 1255 विक्रान्त
7. का० 1610 अनुज गोला
8. का० 2240 अर्जुन
9. का० 1717 रोहित अत्री

प्रभारी निरीक्षक
थाना इज्जतनगर बरेली